



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT



To,
MODI REALITY GENOME VALLEY LLP
5-4-187/3 AND 4, 3RD FLOOR SOHAM MANSION, M G
ROAD
SECUNDERABAD 500003, Telangana
India

PAN:
ABFFM3063P

Assessment Year:
2022-23

Date:
01/08/2023

DIN:
ITBA/AST/F/142(1)/2023-
24/1054771875(1)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत सूचना
Notice under sub-section (1) of Section 142 of the Income Tax Act, 1961

महोदय/महोदया/मैसर्स
Sir/ Madam/ M/s,

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारण के संबंध में, आपको निम्न करने की आवश्यकता है:

In connection with the assessment for the assessment year 2022-23, you are required to:

- क) 16/08/2023 11:00 AM को या उससे पहले अनुलग्नक के अनुसार मांगे गए खातों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करें, अथवा प्रस्तुत कराएं। या
- a) Produce, or cause to be produced, the accounts and documents called for as per annexure on or before 16/08/2023 11:00 AM or
- ख) अनुलग्नक के अनुसार और उसमें निर्दिष्ट बिंदुओं या मामलों पर मांगी गई जानकारी जो कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 ख के अनुसार निर्धारित तरीके से प्रमाणित हो 16/08/2023 11:00 AM को या उससे पहले प्रस्तुत करें।
- b) Furnish the information called for as per annexure and on the points or matters specified therein and authenticated in the prescribed manner as per section 144B of the Income-tax Act, 1961 on or before 16/08/2023 11:00 AM.
- ग) उपरोक्त साक्ष्य/सूचना आयकर विभाग की 'ई-फाइलिंग' वेबसाइट (www.incometax.gov.in) में आपके खाते के माध्यम से 'ई-प्रोसीडिंग्स' सुविधा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जानी है। ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर 'ई-प्रोसीडिंग्स' / 'पहचान विहीन निर्धारण' पर संक्षिप्त नोट उपलब्ध हैं।
- c) The above-mentioned evidence/information is to be furnished electronically in 'e-Proceedings' facility through your account in 'e-Filing' website of Income Tax Department (www.incometax.gov.in). Brief note


on 'e-Proceedings'/'Faceless Assessment' are available on the e-Filing website (www.incometax.gov.in).

Yours faithfully,

Assessment Unit/Verification Unit/Technical Unit/Review Unit

Income Tax Department

NOTE: To know the originator Unit of this Communication, kindly see the Digital Signature.



अनुलग्नक ANNEXURE

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) के तहत निम्नलिखित खाते या दस्तावेज या जानकारी मांगी गई है:
1. The following accounts or documents or information is/are sought under section 142(1) of the Income-tax Act, 1961:

You must be aware that your Income-tax Return for the AY: 2022-23 has been selected for 'Complete' Scrutiny to examine the following issue(s):

"Issue No. 1: Deduction Claimed for Industrial Undertaking u/s 80IA/80IAB/80IAC/80IBA"

With respect to examine the above issue(s) of the year under consideration, kindly submit the below specified documents / information / details:

1. Complete nature of business/profession undertaken by you during the year under consideration.
2. Copy of Financial Statements, Tax Audit Report (if any) and manual computation of income
3. Detail of Bank accounts and statements thereof
4. Please furnish the detail of deduction claimed by you under section 80IA/80IAB/80IAC/80IBA and also furnish documents in support of your claim
5. Please comment on applicability of deduction claimed by you under section 80IA/80IAB/80IAC/80IBA in your case (how you are eligible to get deduction)

Please submit the specific and point-wise reply to the above questionnaires. If any point is not applicable to you, kindly mention it so. You may please submit your reply any time on or before the stipulated date and time.

Assessment Unit/Verification Unit/Technical Unit/Review Unit
Income Tax Department

NOTE: To know the originator Unit of this Communication, kindly see the Digital Signature.